


अप्रैल, 2022 में संपन्न की गई राजभाषा विभाग, द.पू.म.रेलवे, नागपुर मंडल  
की विविध गतिविधियाँ

1. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का ऑनलाइन आयोजन - दिनांक 12.04.2022 को इतवारी स्टेशन, दिनांक 27.04.2022 को मोतीबाग तथा 28.04.2022 को भंडारा रोड स्टेशन के राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का ऑनलाइन आयोजन किया गया ।
2. राजभाषा निरीक्षण -अप्रैल 2022 के दौरान श्री गौतम श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी द्वारा आमगांव स्टेशन, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ)/ भंडारा रोड, वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सिगनल)/ भंडारा रोड, रेल आवास एवं बिल अनुभाग/यांत्रिक विभाग, अनुशासन एवं अपील अनुभाग तथा जनप्रतिनिधि (एम.पी./एम.एल.ए.) अनुभाग/ वाणिज्य विभाग का राजभाषा विषयक मदों का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया गया ।



3. जयंतियों का आयोजन - मंडल कार्यालय के मुंशी प्रेमचंद हिंदी पुस्तकालय में दिनांक 04.04.2022 को हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी तथा दिनांक 09.04.2022 को शनिवार होने की वजह से अगले कार्य-दिवस 11.04.2022 (सोमवार) को महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जयंतियों का आयोजन किया गया ।



4. **हिंदी कार्यशाला** - श्री गौतम श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2022 को 16:00 बजे से 17:15 बजे तक हिंदी कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन किया गया जिसमें कुल 28 रेलकर्मियों उपस्थित थे ।
5. **यूनिकोड सक्रियण** : संदर्भित माह के दौरान वित्त एवं इंजीनियरी विभाग के नए खरीदे गए/ फार्मेटिंग किए गए कुल 06 कम्प्यूटरों में यूनिकोड इंस्टाल किया गया ।
6. **हिंदी में अनुवाद** – संदर्भित माह में राजभाषा विभाग के कार्मिकों द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त निरीक्षण हैंडबुक के कुल 15 पृष्ठों का हिंदी में अनुवाद किया गया ।
7. **राजभाषा दक्षता शील्ड** - दिनांक 20.04.2022 को बिलासपुर में आयोजित 67 वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह (महाप्रबंधक स्तर) के दौरान राजभाषा में अनुकरणीय, उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए राजभाषा रनिंग शील्ड, 2021-22 नागपुर मंडल को प्रदान किया गया ।

